



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 296]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 11, 1977/आषाढ़ 20, 1899

No. 296]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 11, 1977/ASADHA 20, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

## MINISTRY OF COMMERCE

### ORDER

#### IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 11th July 1977

#### OPEN GENERAL LICENCE NO. CXV

**S.O. 547(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby gives general permission to all persons to import into India from any country in the world except the Union of South Africa/South West Africa, Rhodesia and Tibet Region of China, goods of the description specified in the schedule below, provided such goods are shipped on through consignments to India on or before the 31st March, 1978, without any grace period whatsoever.

2. Nothing in this Order shall affect the application to any goods, or of any other prohibition or regulation affecting the import thereof, in force at the time when the goods are imported

*Schedule to OGL No. CXV.*

- (1) Educational, scientific and technical journals;
- (2) News-magazines ; and
- (3) Newspapers devoted to scientific and technological matters

[No 15/77]

A. S. GILL,

Chief Controller of Imports & Exports.

## वाणिज्य मन्त्रालय

आदेश

## आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 1977

## खुला सामान्य लाइसेंस सं० 115

का० आ० 547(अ).—आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, किन्तु दक्षिणी अफ्रीका संघ/ दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, रोडे़शिया और चीन के तिब्बतीय प्रदेश को छोड़कर समार के किसी भी देश से भारत में, नीचे उल्लिखित अनुसूची में निर्दिष्ट माल के विवरण को आयात करने की सामान्य अनुमति देती है, बशर्ते कि ऐसी वस्तुओं का बिना किसी अनुकम्पा अवधि के और भी जो वैध हों, 31 मार्च 1978 को या इससे पहले, भारत के लिए प्रेषण के माध्यम से पोतलदान किया जाता है।

2 जब माल का आयात किया जा रहा हो उस समय लागू किसी माल के लिए आवेदन पर इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या जिस समय माल का आयात किया जा रहा हो, उस समय लागू इसके आयात को प्रभावित करने वाला कोई प्रतिबन्ध या विनियम लागू नहीं होगा।

खुले सामान्य लाइसेंस की अनुसूची सं० 115 :—

- (1) शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी पत्रिका ;
- (2) समाचार-पत्रिका ; और
- (3) वैज्ञानिक एवं शिल्प वैज्ञानिक विषयों से सम्बन्धित समाचार पत्र।

[सं० 15/77]

ए० एस्० गिल,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मन्त्रालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977